



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 अग्रहायण 1941 (श10)  
(सं0 पटना 1339) पटना, बुधवार, 18 दिसम्बर 2019

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना  
18 दिसम्बर 2019

सं० 3/एच०-03/2019-सा०प्र०-17269—खानकाह मुजीबिया, फुलवारीशरीफ के पत्रांक—KMP/606/95/19 दिनांक—07.12.2019 द्वारा सूचित किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या—03/एच—03/2019—13501 दिनांक—30.09.2019 द्वारा वर्ष 2020 के लिए अधिसूचित अवकाशों की सूची में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस दिनांक—30 अक्टूबर, 2020 (शुक्रवार) के स्थान पर दिनांक—30 नवम्बर, 2020 (शुक्रवार) अंकित है।

2. अतः सम्यक् विचारोपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या— 03/एच—03/2019—13501 दिनांक—30.09.2019 द्वारा राज्य सरकार के कार्यालयों एवं न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालयों के लिए कार्यपालक आदेश के तहत घोषित अवकाश से संबंधित अनुसूची—1 का क्रमांक—15 निम्नरूप में संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है—

क्रमांक	पर्व/अवसर/अवकाश का नाम	अवकाश के दिनों की संख्या	ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	शाके तिथि/हिजरी तारीख	सप्ताह के दिन
15.	हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस	1 दिन	30 अक्टूबर, 2020	12 रबीउल औव्वल 1442 हिजरी	शुक्रवार

3. उपर्युक्त अधिसूचना संख्या—03/एच—03/2019—13501 दिनांक—30.09.2019 का शेष अंश यथावत् रहेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
राम शंकर,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1339-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>